

प्रेस नोट दिनांक-07.08.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस ने 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). उप निरीक्षक श्री विजय बहादुर यादव थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 150/022 धारा 498(A)/323/504/506/370/376 भादवि0 के वांछित अभियुक्त सुग्रीव उर्फ सुप्रीत पुत्र विद्याराम कठेरिया निवासी ग्राम बल्लपुर थाना एरवा कटरा जनपद औरैया को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

i. उप निरीक्षक श्री विजय बहादुर यादव थाना मऊ

ii. आरक्षी नागेश कुमार

2. वरि0उ0नि0 श्री कमलेश कुमार थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 158/022 धारा 328/342/323/504 506/376 भादवि0 के वांछित अभियुक्त दिनेश पाल पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम पिपरी का पुरवा मजरा कोटला खम्बा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

i. वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री कमलेश कुमार थाना मऊ

ii. आरक्षी धर्मेन्द्र कुशवाहा

(2). आज दिनांक-07.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी/कार्यालयों एवं पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान के तहत पुलिसकर्मियों द्वारा थाना/चौकी/कार्यालय/पुलिस लाइन परिसर की साफ सफाई की गई साथ ही साथ बैरकों, मालखाना, भोजनालय, कार्यालय एवं शस्त्रों की भी साफ-सफाई की गयी।

(3). आज दिनांक-06.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(4). आज दिनांक 07.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित

महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(5). आज दिनांक-07.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव एवं यातायात पुलिस द्वारा ट्राफिक चौराहा पर वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोड, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट, ओवरस्पीड वाहनों, तीन सवारी की चेकिंग की गयी। यातायात प्रभारी द्वारा चेकिंग के दौरान मोबाइल फोन, हैंडसेट का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों को हिदायत दी गयी कि भविष्य में वाहन चालते समय कभी भी मोबाइल फोन, हैंडसेट का प्रयोग न करें। वाहन धीमी गति से सतर्कता पूर्वक चलाए। टैम्पों चालकों को निर्देश दिये गये कि अवैध रूप से सड़क पर पार्किंग न करें। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोड, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट न लगाए, दो पहिया वाहन में 03 सवारी, टैम्पों/रिक्शा में ओवरलोड सवारी पाए गए वाहनों का पेण्डिंग ई-चालान किया गया। यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जानकारी देकर नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।